

विषय: वेब-साइट को अपडेट करने के लिए कल्याण अनुभाग का डेटा

उपरोक्त विषय के अंतर्गत वेब-साइट को अपडेट करने के लिए कल्याण अनुभाग की गतिविधिया निम्नानुसार है:

### कैंटीन/Canteen

दिनांक: 01.08.2020 से दोनों कार्यालयों के कर्मचारी एवं अधिकारियों की रोगप्रतिकरक शक्ति बढ़ाने हेतु कैंटीन के कर्मचारी द्वारा रोज दिन में दो बार (सुबह 11.00 बजे से 12.30 तक और दोपहर 03.00 बजे से 04.30 बजे तक) काढ़ा बनाकर टेबल टू टेबल निसुल्क सर्व किया गया जो दिनांक: 02/2022 तक (करीब डेढ़ साल तक) सर्व किया गया। टेबल टू टेबल सर्व करने का हेतु यह था की कोरोना काल में कर्मचारी एक जगह पर जमा न हो और सोसियल डिस्टन्सिंग/दूरी बनी रहे। काढ़े के सेवन से सभी कर्मचारियों की सेहत में काफी सुधार रहा। जिसमें कैंटीन के सभी कर्मचारियों का बहुत अच्छा सहयोग/योगदान मिला।

### शिशुग्रह/Creche

1989 से लेखा एवं लेखा परीक्षा कार्यालयों की महिला कर्मचारियों के छोटे बच्चों के लिए क्रेच सेवा सुचारू रूप से चल रही है। शिशुग्रह में A.C, R.O. प्लान बच्चों के लिए खिलौने और आवश्यकता होने पर अन्य सुविधाए उपलब्ध कराई जाती है। इस समय हमारे दोनों कार्यालय के कर्मचारी के 04 बच्चे शिशुग्रह में है।

### परोपकारी निधि/Benevolent Fund

कोरोना महामारी या किसी अन्य वजह से कार्यालय के जिन कर्मचारियों का पिछले कुछ समय दौरान निधन हुआ उनके परिवार को 20,000/- रुपए परोपकारी निधि (Benevolent Fund) में से तत्काल सहाय के रूप में दिए गए।

दिनांक: 01.04.2021 से 31-03-2022 की अवधि तक

क्र.स.	नाम	राशि
1.	Late Shri A L Vaghela	20,000/-
2.	Late Shri D K Oza	20,000/-
3.	Late Shri M L Solanki	20,000/-
4.	Late Shri J D Patel	20,000/-
5.	Late Shri V I Savlani	20,000/-
6.	Late Shri Avi Barot	20,000/-
	<b>कुल</b>	<b>1,20,000/-</b>

2021-22 में परोपकारी निधि में दोनों कार्यालय के कर्मचारी द्वारा 96,500/- रुपए का फंड एकत्रित हुआ है। इस साल के अंत तक (31.03.2022 तक) परोपकारी निधि में 2,11,803/- रुपए बैलेन्स है।

## रेपिड टेस्ट

1. कोरोना महामारी की पहली लहर के दरमियान कर्मचारी के स्वास्थ्य के लिए आरएमसी की टीम की सहायता से रेपिड टेस्ट दोनों कार्यालयों के कर्मचारी के लिए दिनांक : 23.11.2020 को किया गया था जिनमें हमारे 139 कर्मिकों का रेपिड टेस्ट हुआ था।
2. कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दरमियान कर्मचारी के स्वास्थ्य के लिए RMC की टीम की सहायता से दोनों कार्यालयों के कर्मचारी के लिए रेपिड टेस्ट (एंटीजन) दिनांक : 15-03-2021 को किया गया था जिनमें हमारे 121 कर्मिकों का रेपिड टेस्ट हुआ था।
3. कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दरमियान कर्मचारी के स्वास्थ्य के लिए RMC की टीम की सहायता से दोनों कार्यालयों के कर्मचारी के लिए रेपिड टेस्ट (एंटीजन) दिनांक : 17-01-2022 को किया गया था जिनमें हमारे दोनों कार्यालयों के 325 कर्मिकों का रेपिड टेस्ट हुआ था।

## वेक्सिनेसन कैंप/ Vaccination camp

दिनांक 01.09.2021 को हमारे दोनों कार्यालय के कर्मिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए जो eligible (योग्य) थे उनके लिए प्रथम या द्वितीय वेक्सिनेसन डोज की व्यवस्था RMC टीम साहायता से हमारे कार्यालय में की गई थी जिनमें हमारे दोनों कार्यालय के कर्मिकों एवं उनके परिवार सदस्यों ने कोविशील्ड प्रथम एवं द्वितीय वेक्सिनेसन डोज का लाभ उठाया।

दिनांक 27.09.2021 को दूसरी बार हमारे दोनों कार्यालय के कर्मिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए जो eligible (योग्य) थे उनके लिए प्रथम या द्वितीय वेक्सिनेसन डोज की व्यवस्था RMC टीम साहायता से हमारे कार्यालय में की गई थी जिनमें हमारे दोनों कार्यालय के कर्मिकों एवं उनके परिवार सदस्यों ने कोविशील्ड प्रथम एवं द्वितीय वेक्सिनेसन डोज का लाभ उठाया।

## मेडिकल कैंप

कार्यालय के कल्याण विभाग की गतिविधियों के भाग रूप 'क्राइस्ट हॉस्पिटल-राजकोट' के चिकित्सकों द्वारा एक हेल्थ सेमिनार, हेल्थ जागरूकता कैंप और प्राथमिक स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम का आयोजन हमारे दोनों कार्यालय के कर्मिकों एवं उनके परिजनो के लिए दिनांक 16-12-2021 को आयोजित किया गया।

इस चिकित्सा शिविर (Medical Camp) के दौरान निम्नलिखित सेवाएं निसुल्क प्रदान की गईं:-

1. नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सा (Ophthalmologist consultation)
2. परामर्श चिकित्सा (Physician consultation)
3. स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सा (Gynaecology consultation)
4. हृदयरोग चिकित्सा (Cardiologist consultation)

इस शिविर दौरान अधिकतम कर्मिक एवं उनके परिजनो ने लाभ उठाया करीब 350 लोगो ने

## ‘लेखापरीक्षा जागरूकता सप्ताह (Audit Awareness Week)’ 2021

मुख्यालय की सूचना एवं दिशानिर्देशानुसार कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.) और कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ऑडिट-1) दोनों कार्यालयों द्वारा प्रथम ‘लेखापरीक्षा जागरूकता सप्ताह-2021’ सफलतापूर्वक निम्नानुसार मनाया गया”:

1. दिनांक 16-11-2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे सभी उपस्थित कार्मिकों द्वारा ‘लेखापरीक्षा जागरूकता सप्ताह (Audit Awareness Week)’ के संबंध में एक प्रतिज्ञा ली गई।
2. दोनों कार्यालयों के कार्मिकों के लिए चित्रकारी/Painting प्रतियोगिता दिनांक 17-11-2021 पूर्वाह्न 11:30 बजे दोनों कार्यालयों के अपने-अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजन किया गया। दोनों कार्यालयों के प्रतिभागियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग इस कार्यालय के सेवानिवृत्त अधिकारी/कार्मिक को जांच के लिए सौंपी गई जो अपना कीमती समय निकाल कर प्रतियोगिता के दौरान भी उपस्थित रहे और दोनों ही (सेवानिवृत्त अधिकारी/कार्मिक) उच्चकोटी के चित्रकार भी हैं।
3. दोनों कार्यालयों के कार्मिकों के लिए प्रश्नोत्तरी/Quiz प्रतियोगिता का दिनांक 17-11-2021 अपराह्न 4.00 बजे इस कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजन किया गया, जिसका प्रश्नपत्र श्रीमती ऐनी जीजो/वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया तथा प्रतियोगिता श्री सजी थॉमस/वरिष्ठ उप महालेखाकार की निगरानी में की गई। प्रतियोगिता की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वरिष्ठ उप महालेखाकार ने वहीं ऑडिट के प्रश्नपत्र(उत्तर) अकाउंट्स के प्रतिभागियों को एवं अकाउंट्स के प्रश्नपत्र(उत्तर) ऑडिट के प्रतिभागियों को जांच के लिए सौंप दिए और उसी समय परिणाम घोषित कर दिया गया। प्रतियोगिता के दौरान श्री एस. जे पारेख, वरिष्ठ लेखा अधिकारी/कल्याण एवं श्रीमती ऐनी जीजो, वरिष्ठ लेखा अधिकारी भी उपस्थित थे।
4. दिनांक 18.11.2021 को (ले. व ह.) कार्यालय के कार्मिकों के लिए एक आइडिया एक्सचेंज एंड पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया था, जिसमें इस कार्यालय के श्री यू. वी. गज्जर, वरिष्ठ लेखा अधिकारी और श्री ए. एन. उपाध्याय, वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं जिम्मेदारियों के लिए संवैधानिक एवं लेखापरीक्षा के लिए लेखों के महत्व के बारे में बताया तथा लेखों की गुणवत्ता, सटीकता, एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित करने को कहा। उपस्थित सभी कार्मिकों को इस विषय के बारे में करीब डेढ़ घंटे तक मार्गदर्शन दिया गया, यह सत्र काफी इण्टरेक्टिव रहा तथा कार्मिकों के लिए काफी ज्ञानप्रद एवं उपयोगी रहा। इस कार्यक्रम में इस कार्यालय के वरिष्ठ उप महालेखाकार, श्री सजी थॉमस भी उपस्थित थे।
5. दोनों कार्यालयों के लिए समापन समारोह के रूप में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 22.11.2021 को किया गया जिसमें कार्यालय के कार्मिकों ने विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जिसमें गीत-संगीत, गायन, नृत्य शामिल थे। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ उप महालेखाकार श्री सजी थॉमस द्वारा लेखापरीक्षा(Audit-I), के कार्मिकों को पुरस्कार दिये गए एवं उप महालेखाकार श्री डॉ. संदीप पांडुले द्वारा लेखा एवं हकदारी (A&E), के कार्मिकों को पुरस्कार दिये गये। लेखापरीक्षा जागरूकता के संदर्भ में प्रधान महालेखाकार(ले. व ह.) की

सचिव सुश्री ऐनी जीजो ने निबंध-लेखन (Essay Writing) प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के विचारों की सराहना की। अंत में अल्पाहार के साथ ही यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

## **नवरात्रि के दौरान रास-गरबा कार्यक्रम का आयोजन।**

वेलफर गतिविधियों के भाग रूप एवं स्टाफ के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि के दौरान दिनांक 12-10-2021 को रास-गरबा का आयोजन दोनों कार्यालय के कर्मिकों एवं उनके परिजनों के लिए (कोविड के दिशा निर्देशों के पालन के साथ), कार्यालय के कैंटीन के पास लोन गार्डन में आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का प्रारंभ प्रधान महालेखाकर श्री द्वारा माताजी की आरती से की गई और सभी उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारीयों एवं परिवार के सदस्यों ने आरती का लाभ लिया। इस कार्यक्रम के दौरान सभी कर्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए नास्ते का प्रबंध भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मनोरंजन क्लब के सचिव का बहुत बड़ा सहयोग रहा।

## **‘अंध ध्वज दिवस’/Flag Day**

हर साल 14 सितंबर को नेत्रहीनों के लिए FLAG DAY (झंडा दिवस) के रूप में मनाया जाता है। हमारे दोनों कार्यालय के कर्मचारी द्वारा हर साल नेत्रहीन लोगों के लिए फंड एकत्रित किया जा है। इस साल 14 सितंबर 2021 के दिन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड्स से नेत्रहीन लोग आए थे उनकी आने जाने की और कार्यालय में बीठाने तथा अन्य व्यवस्थाएँ भी उपलब्ध कराई गईं। इस साल रु.8511/- धन राशि ईकट्ठी की गई और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड्स (राजकोट यूनिट) को प्रदान की गई। इस फंड को एकत्रित करने में इस कार्यालय के कर्मचारी कुमारी जैमिनी परमार, श्रीमति पूनम बारैया, श्रीमती अरविंद खेरवा और श्रीमती दीपिका तरबड़ा का सहयोग रहा।

## **‘राष्ट्रीय सांप्रदायिक सदभाव अभियान सप्ताह’/National Harmony Day/Week**

NFCH (राष्ट्रीय सांप्रदायिक सदभाव प्रतिष्ठान) की अपील अनुसार कल्याण कक्ष द्वारा दोनों कार्यालयों की एकत्रित धन-राशि रु 25,600/- की गई और NFCH (राष्ट्रीय सांप्रदायिक सदभाव प्रतिष्ठान) के खाते/अकाउंट्स में जमा की गई। जो सांप्रदायिक, जातीय, वंशीय अथवा आतंकवादी आदि हिंसा के शिकार हुए बच्चों के प्रभावी पुनर्वास में सहायता प्रदान करने तथा ऐसे बच्चों की देख-रेख, शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर विशेष बल देने हेतु उपयोग की जाती है।

## **मनोरंजन क्लब द्वारा की गई सांस्कृतिक एवं खेल-कूद गतिविधियाँ**

मनोरंजन क्लब द्वारा दिनांक: 01.03.2021 से 09.03.2021 तक दोनों कार्यालय के कार्मिकों के लिए टैनिंस बोल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिनमें करीब 120 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को मनोरंजन क्लब की ओर से एक टिस्ट दिया गया।

दिनांक 08.03.2021 को मनोरंजन क्लब द्वारा महिला कर्मचारियों के लिए महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के दरमियान सभी के लिए नास्ते का प्रबंध भी किया गया। और सभी महिला कार्मिकों को एक बाग भेट के रूप में दी गई।

### **अखिल भारतीय सिविल सेवा टूर्नामेंट में भागीदारी/Participation in All India Civil Services**

#### **Tournaments in 2021-22:**

03 सितंबर, 2021 को अहमदाबाद में अखिल भारतीय सिविल सेवा (All India Civil Services) संगीत और नृत्य प्रतियोगिता 2020-21 के लिए चयन रखा गया था जिसमें सुश्री वंदना जादव और श्रीमति नीलम बगथरिया ने हिस्सा लिया और दोनों का इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए चयन किया गया।

अखिल भारतीय सिविल सेवा (All India Civil Services) संगीत और नृत्य प्रतियोगिता जो 15 से 17 सितम्बर 2021 नई दिल्ली में आयोजित की गई थी उसमें हमारे कार्यालय के कर्मचारी श्रीमति नीलम बगथरिया और सुश्री वंदना जादव ने हिस्सा लिया। जिसमें सुश्री वंदना जादव ने शास्त्रीय नृत्य (Classical Dance) की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान (गोल्ड/Gold) प्राप्त किया।

अखिल भारतीय सिविल सेवा (All India Civil Services) हॉकी प्रतियोगिता जो 23.09.21 से 30.09.21 तक हरियाणा, कुरुक्षेत्र में आयोजित की गई थी उसमें श्री पीयूष कैला और श्री दिग्विजयसिंह कोटिला ने हिस्सा लिया था।

अखिल भारतीय सिविल सेवा (All India Civil Services) टेबल टैनिंस प्रतियोगिता जो 24.09.21 से 29.09.21 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी उसमें श्री गौरव दोषी, श्री जलय मेहता और श्री सिकंदर जाम ने हिस्सा लिया था।

अखिल भारतीय सिविल सेवा (All India Civil Services) एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो 28.09.21 से 30.09.21 तक हरियाणा, करनाल में आयोजित की गई थी उसमें श्री शंकर परमार, श्री रवीन्द्रसिंह गोहील और श्री महाविरसिंह जडेजा ने हिस्सा लिया था।

अखिल भारतीय सिविल सेवा (All India Civil Services) क्रिकेट प्रतियोगिता जो 10.03.22 से 15.03.22 तक दिल्ली में आयोजित की गई थी उसमें श्री शौर्य सानंदीय, श्री कुलदीप शर्मा और श्री कुलदीप रावल ने हिस्सा लिया था।

अखिल भारतीय सिविल सेवा (All India Civil Services) फूटबाल प्रतियोगिता जो 10.03.22 से 15.03.22 तक दिल्ली में आयोजित की गई थी उसमें श्री प्रकाश कोतवाल, श्री श्याम वाला, श्री सिद्धार्थ लोटिया, दिग्विजयसिंह कोटिला श्री मनदीपसिंह बारड, श्री दीप राजगोर, श्री करणसिंह राठोर और श्री उदय ओली (मैनेजर) ने हिस्सा लिया था।

अखिल भारतीय सिविल सेवा (All India Civil Services) केरम प्रतियोगिता जो 10.03.22 से 15.03.22 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी उसमें श्री सी.एम.बसिया, श्री दीपक बारैया, श्री विपुल सोदाह और श्री रणजीत सीसोदिया ने हिस्सा लिया था।

वरि. लेखा अधिकारी/कल्याण

सेवा में,

वरि. लेखा अधिकारी/ITS